

## प्रेस विज्ञापित

दिनांक: 31.05.2022

### थाना सिकन्द्राबाद पुलिस की बाइक सवार बदमाशों से हुई मुठभेड़, क्रॉस फायरिंग में 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित अपराधी मुस्तकीम उर्फ सलीम घायलावस्था में गिरफ्तार, कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस व बाइक बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर श्री श्लोक कुमार के निर्देशानुसार जनपद में चलाये जा रहे अपराधियों के विरुद्ध अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री सुरेन्द्रनाथ तिवारी के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी सिकन्द्राबाद श्री सुरेश कुमार के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 31-05-2022 को थाना सिकन्द्राबाद पुलिस टीम गुलावठी रोड़ फ्लाईओवर के पास सन्दिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग में मामूर थी कि उसी समय एक स्पलेंडर बाइक पर 02 व्यक्ति आते दिखाई दिए जिनको रुकने का इशारा किया गया तो बदमाश बाइक को तेजी से मोड़कर संतपुरा नहर पटरी पर भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा बदमाशों का पीछा किया गया तो उनकी बाइक अनियंत्रित होकर गिर गयी जिस पर बदमाशों द्वारा अपने आपको पुलिस से घिरता देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ, जिसको घायलावस्था में समय करीब 17.25 बजे गिरफ्तार किया गया तथा एक अन्य बदमाश भागने में सफल रहा जिसकी भी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। गिरफ्तार/घायल बदमाश की पहचान मुस्तकीम उर्फ सलीम उर्फ शौकीन पुत्र जलालुद्दीन हकीम निवासी ग्राम बझेड़ा थाना धौलाना जनपद हापुड़ के रूप में हुई जिसको उपचार हेतु सीएचसी सिकन्द्राबाद में भर्ती कराया गया। घायल बदमाश द्वारा फरार बदमाश की पहचान अपने भाई मजताब के रूप में की गई। घायल बदमाश मुस्तकीम शातिर किस्म का चोर/अपराधी है जो थाना सिकन्द्राबाद पर पंजीकृत मुअसं-379/22 धारा 379,411 भादवि, मुअसं-374/22 धारा 457,380,411 भादवि, मुअसं-392/22 धारा 379,411 भादवि व मुअसं-408/22 धारा 457,380,379,414 भादवि में वांछित चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित है। इसके अतिरिक्त बदमाश मुस्तकीम थाना स्याना पर पंजीकृत 03 अभियोग में भी वांछित चल रहा था।

#### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. मुस्तकीम उर्फ सलीम उर्फ शौकीन पुत्र जलालुद्दीन उर्फ हकीम निवासी ग्राम बझेड़ा थाना धौलाना जनपद हापुड़।

#### बरामदगी-

- 1- एक तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा व एक खोखा कारतूस
- 2- एक स्पलेंडर प्लस बाइक बिना नंबर

गिरफ्तार अभियुक्त मुस्तकीम उर्फ सलीम उर्फ शौकीन शातिर किस्म का अपराधी हैं जिसके विरुद्ध जनपद के विभिन्न थानों पर चोरी आदि संगीन अपराधों निम्न अभियोग पंजीकृत हैं-

#### गिरफ्तार घायल बदमाश/मुस्तकीम उर्फ सलीम उर्फ शौकीन का आपराधिक इतिहास-

- 1- मुअसं-379/22 धारा 379,411 भादवि थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलंदशहर।
- 2- मुअसं-374/22 धारा 457,380,411 भादवि थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलंदशहर।
- 3- मुअसं-392/22 धारा 379,411 भादवि थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलंदशहर।
- 4- मुअसं-408/22 धारा 457,380,379,414 भादवि थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलंदशहर।
- 5- मुअसं-579/21 धारा 379 भादवि थाना स्याना जनपद बुलंदशहर
- 6- मुअसं-580/21 धारा 379 भादवि थाना स्याना जनपद बुलंदशहर
- 7- मुअसं-581/21 धारा 379 भादवि थाना स्याना जनपद बुलंदशहर
- 8- मुअसं-492/22 धारा 307 भादवि (पुलिस मुठभेड़) थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलंदशहर।
- 9- मुअसं-493/22 धारा 25/27 भादवि थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलंदशहर।

अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना सिकन्द्राबाद पर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

#### पुलिस टीम-

1. श्री जितेन्द्र कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना सिकन्द्राबाद
2. व0उ0नि0 पटनीश कुमार थाना सिकन्द्राबाद
3. उ0नि0 इमाम जैदी चौकी प्रभारी खुर्जा गेट थाना सिकन्द्राबाद
4. उ0नि0 शिवम कुमार, है0का0 संजय, , है0का0 अशोक कुमार, का0 रोहित, का0 विजय पटेल, का0 शीतल देव, का0 राजकुमार, का0 राहुल, का0 रमन यादव, का0 नवीन कुमार